

REGISTERED OFFICE:
6TH FLOOR, ARIA TOWERS, J.W.MARRIOTT,
NEW DELHI AEROCITY, ASSET AREA 4,
HOSPITALITY DISTRICT, NEAR IGI AIRPORT
NEW DELHI 110037
TEL.:011 46101210 FAX: 011 41597321
CIN NO. L55101DL2007PLC157518
WEBSITE: www.asianhotelswest.com

ASIAN HOTELS(WEST) LIMITED

Date: July 01, 2024

The Manager, Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Scrip code 533221	National Stock Exchange of India Limited Exchange, Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra KurlaComplex, Bandra (East), Mumbai 400 051 Scrip Code AHLWEST
--	--

Sub: Newspaper Advertisement

Reg: Regulation 30 and 47 of SEBI(LODR), Regulations, 2015 (“Listing Regulations”)

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of Listing Regulations, please find attached copies of newspaper advertisement of Audited Financial Results of the Company for the financial year ended 31.03.2021 and 31.03.2022 published in newspaper - Business Standard (English) and Business Standard (Hindi) on 1st July, 2024.

This is for your information and dissemination purpose.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Asian Hotels (West) Limited**

Name: Nidhi Khandelwal
Designation: Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A20562
Encl: As mentioned above

केनरा बैंक

Canara Bank

कनारा बँक लिमिटेड

Canara Bank Limited

Branch Office :- Sohna Chowk Branch, Delhi Alwar road, Sohna. DP Code 18215, E-Mail - cb18215@canarabank.com

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For Immovable property)

Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a **Demand Notice dated 20.04.2024** calling upon the borrower **1. Ms Prachi Traders Prop. Mr. Vishwanath Verma S/O MR. Ashok Kumar Verma WARD NO 15, SOHNA-122103, 2. Mr. Vishvanath Verma (Prop.) S/o Mr. Ashok Kumar Verma Ward NO 15, Lohiyawara , Sohna-122103, 3. Mr Sameer Verma(Guarantor) S/o Mr. Vishvanath Verma Ward NO 1,5 Lohiyawara , Sohna-122103** to repay the amount mentioned in the notice, being **Rs. 13,93,791.17 (Rupees Thirteen Lakh Ninety Three Thousand Seven Hundred Ninety One and paise Seventeen only)** with interest thereon.

The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

Property / Shop Two Khani Measuring 20.63 SQ Yards Covered Area 186 SQ Feet Baering Part Of Prop I'd No 14/M0030C00080800025 Situated In Ward No 15 Old New Ward 18 Lohiyawara Near Jain Mandir Tehsil Sohna Distt Gurgaon.

Dated: 26.06.2024 Place: Gurgaon Authorized Officer, Canara Bank

Registered Office:-6th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

You the below mentioned borrower(s), co-borrower(s) have availed loan/s facility from **DCB Bank Limited** by mortgaging your immovable properties (securities). Consequent to your defaults your loans were classified as non-performing assets. **DCB Bank Limited** For the recovery of the outstanding dues, issued demand notice under section 13(2) of The Securitization And Reconstruction Of Financial Asset And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (the Act), the contents of which are being published herewith as per Section 13(2) of the Act read with rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 as and by way of service upon you. Details of the borrowers, co-borrowers, properties mortgaged, outstanding dues, demand notice sent under Section 13(2) and amount claimed there under are given as under:

Sr	Name and address of the borrower, co-borrower/ guarantor, loan account no., loan amount	Secured property address	1) Demand notice date 2) Outstanding dues 3) NPA DATE
1	1. MR. MANOJ KUMAR, 2. MRS. SUMAN SINGH. All Address At:- Flat No 65 Second Floor C.G.H.S Ltd Plot No 23 Anekan Apartment Vasundhara Enclave New Delhi-110096. Loan Account Number:- 31159000002295/DRBLDEL00521239 Loan Amount Sanctioned: Rs. 61,19,009/-	All The Piece & Parcel Of Property Bearing Flat No 65 On Second Floor Situated In The Layout Plan Of Anekan C.G.H.S.LTD Constructed On Plot No 23 Vasundhara Enclave Delhi. (The Secured Assets).	1) 11-06-2024. 2) Rs. 51,31,872.24/- (Rupees Fifty One Lakh Thirty One Thousand Eight Hundred Seventy Two and Twenty Four Paise Only) as on 11th June 2024 3) NPA Date – 04-06-2024
2	1. MR. MURTAZA S KHOKHAR, 2. MRS. BANUBEN KHOKHAR, 3. MRS. SAKINA KHOKHAR, 4. M/S. Natural Food Agency (through Its Partner Mr. Murtaza Khokhara) All Address At:- House No 141 Out Of Khasara No. Nil Third Floor J Extn Laxmi Nagar New Delhi-110092 Loan Account Number:- DRSENB000416717 Loan Amount Sanctioned: Rs. 10,00,000/-	All The Piece & Parcel Of One Flat Of Two Plus One Room Setup At Top Floor Area Admeasuring 65 Sq Yards Part Of Property Bearing No 141 Out Of Khasara No Nil Situated In Vill: Khureji Khas Abadi Of J Extn. Laxmi Nagar Shahdara Delhi Bounded By:- Towards East: Remaining Portion Towards West: 15 Feet Road towards North: Plot No 140,towards South: 15 Feet Road (the Secured Assets)	1) 11-06-2024. 2) Rs. 7,16,588.11/- (Rupees Seven Lakh Sixteen Thousand Five Hundred Eighty Eight and Eleven Paise Only) as on 11th June 2024. 3) NPA Date – 04-05-2024
3	1. MR. SURJIT KUMAR, 2. MRS. POONAM DEVI. All Address At:- Sector 45 Noida 201306 Loan Account Number:- DRHLGHZ00572609 Loan Amount Sanctioned: Rs. 16,76,840/-	All The Piece & Parcel Of Property Bearing Plot No.37 B, Khasra No.773 Mi Admeasuring 60 Sq.gaj i.e.50.16 Sqmtrs Shriram City Situated At Gram: Birsakh Jalalpur Tah: Dadri Dist: Gautam Budha Nagar Bounded By:- towards East: Self Plot,towards West: Plot Of Mr. Subhash Towards North: Plot Of Others,towards South: 22 Feet Road (the Secured Assets)*	1) 06-06-2024. 2) Rs. 17,11,665/- (Rupees Seventeen Lakh Eleven Thousand Six Hundred Sixty Five Only) as on 6th June 2024 3) NPA Date – 04-05-2024
4	1. MR. OMPRAKASH SHARMA, 2. MRS. ANJANA SHARMA. All Address At:- H No. 143 D Block Gali No 6 Durga Vihar Sadarpur Sec 45 Noida-201301 Loan Account Number:- DRHLGHZ00574515 Loan Amount Sanctioned: Rs. 12,29,028/-	All The Piece & Parcel Plot No. H 36 Admeasuring 60 Sq Gaj i.e.,50.16 Sq Mtrs Khasara No 67 Situated At Paradise Dream City 2 Vill: Amaka Teh: Dadri Dist Gautam Budha Nagar Bounded By:- towards East : Others Property,towards West : 25 Feet Road , towards North : Plot No.h-37, Towards South : Plot No H35 (the Secured Assets)*	1) 10-06-2024. 2) Rs.6,46,290/- (Rupees Six Lakh Forty-Six Thousand Two Hundred Ninety Only) as on 10th June 2024. 3) NPA Date – 04-05-2024
5	1. MR. PANKAJ KUMAR, 2. M/S S.P. ENTERPRISES (THROUGH ITS PROPRIETOR MRS. ANJU KUMAWAT), 3. MR. SUKHEDEV PRASAD, 4. MRS. ANJU KUMAWAT 5. M/S V.S. ENTERPRISES (THROUGH ITS PROPRIETOR MR. PANKAJ KUMAR) All Address At:- 563/18 Gali No 2 Near Sbi Model Town Bahadurgarh Jhajjar-124507 Loan Account Number:- DRBLKAO00501211/DRBLKAO00510721 Loan Amount Sanctioned: Rs. 96,10,000/-	All The Piece & Parcel Of Property Bearing Municipal No. 870 (old No. 563) Area Admeasuring 200 Sq Yards Ward No 18 Out Of Khasara No.2373 Situated At Model Town Gali No 2 Bahadurgarh Bounded By:- towards East: Plot Of Ved Saini ,towards West: House Of Bhatnagar,towards North: Plot Of Sukhdev, towards South:10 Feet Road. (the Secured Assets)*	1) 10-06-2024. 2) Rs. 89,98,124.32/- (Rupees Eighty-Nine Lakh Ninety-Eight Thousand One Hundred Twenty-Four and Thirty-Two Paise Only) as on 10th June 2024. 3) NPA Date – 04-05-2024
6	1. MR. PRADEEP KUMAR, 2. MRS. SVETA DEVI, 3. MR. RAJIV. All Address At:- H No. 101 Akbarpuri Behrampur Ghaziabad-201001 Loan Account Number:- DRHLNOI00424364 Loan Amount Sanctioned: Rs. 17,10,623/-	All The Piece And Parcel Of Plot Admeasuring 90 Sq Gaj i.e.75.24 Sq Mtrs Khasara No 212/1 House No 246 Vill: Akabarpur Behrampur Kherati Nagar Ghaziabad Bounded By:- towards East: Plot If Digar Malik,towards West: Plot Of Digar Malik,towards North: Plot Of Digar Malik,towards South: 20 Feet Road (the Secured Assets)*	1) 05-06-2024. 2) Rs.24,354.38/- (Rupees Twenty Four Lakh Thirty Four Thousand Three Hundred Fifty Four and Thirty Eight Paise Only) as on 5th June 2024 3) NPA Date – 04-05-2024
7	1. MR. PRAMOD KUMAR, 2. MRS. URMILA DEVI, 3. MR. SACHIN ARORA, 4. M/S ROHIT GARMENTS (THROUGH ITS PROPRIETOR MR. PRAMOD KUMAR) All Address At:- F-72 Dilshad Colony Old Seemapuri East Delhi New Delhi-110095 Loan Account Number:- DRBLDEL00443249/DRBLDEL00551817/DRBLDEL00481442/DRBLDEL00421948 Loan Amount Sanctioned: Rs. 2,00,12,025/-	All The Piece & Parcel Of Property Plot No. F/72 Admeasuring 192 Sq Yards Bearing Khasra No. 1076/5/2/5757 Situated At Abadi Dilshad Extn. In The Area Of Vill: Jhimila Tahirpur Delhi Bounded By:- towards East: Road, Towards West: Service Lane,towards North: Plot No F-73,towards South: Plot No. F-71 (the Secured Assets)*	1) 10-06-2024. 2) Rs. 1,43,93,858.48/- (Rupees One Crore Forty-Three Lakh Ninety Three Thousand Eight Hundred Fifty-Eight and Forty-Eight Paise Only) as on 10th June 2024 3) NPA Date – 04-05-2024
8	1. MR. SHIV SHANKAR PANDEY, 2. MRS. BALAWATI. All Address At:- R2/49 B Kailashpuri Sagarpur New Delhi-110046 Loan Account Number:- DRBLGHZ00421130/DRBLGHZ00519302 Loan Amount Sanctioned: Rs. 78,74,518/-	All The Piece And Parcel Of Plot Bearing No.78A On The Land Measuring 135 Sq Yards Out Of Khasra No 31/10 Situated At Village Dabri Abadi Known As Dabari Extension New Delhi Bounded By:- towards East: 20 Ft Road,towards West:10 Ft Road,towards North: Property Of Others,towards South: Property Of Others (the Secured Assets)*	1) 11-06-2024. 2) Rs. 67,53,327.24/- (Rupees Sixty Seven Lakh Fifty Three Thousand Three Hundred Twenty Seven and Twenty Four Paise Only) as on 11th June 2024 3) NPA Date – 04-06-2024
9	1. MR. MADAN LAL, 2. MRS. MEGHA JINDAL, All Address At:- Upper Ground Floor Property No. -9-b And 9-b/1 Khasara No. 116 & 117 Moti Ram Nagar Shahdara New Delhi-110032 Loan Account Number:- DRBLNOI00412890/DRBLNOI00521131/DRBLNOI00544047 Loan Amount Sanctioned: Rs. 19,05,544/-	All Piece And Piece & Parcel Of House Bearing Old No.33-a & 33- B New House No.34 Admeasuring 33sq Yards Situated At Mohalla Dharampura Tehsil & Dist: Ghaziabad. (the Secured Assets)	1) 22-05-2024. 2) Rs.19,49,089/- (Rupees Sixteen Lakh Forty Nine Thousand Eighty Nine Only) as on 22nd May 2024 3) NPA Date – 04-04-2024
10	1. MR. RAKESH KANOJIA, 2. MRS. NEELAM KANOJIA, All Address At:- H no. Rc- 543 Gali No.1 Khora Colony Ghaziabad-201001 Loan Account Number:- DRHLGHZ00466193 Loan Amount Sanctioned: Rs. 30,00,000/-	All The Piece And Parcel Plot No 01 Part Of Khasra No 606 Out Of Area 200 Sqyard i.e. 167.22 Sq. Mtrs Situated At Radha Enclave Village Roja Jalalpur Tal: Dadri Dist: Gautambudha Nagar Bounded By: Toward East: Other Plot,towards West: 18 Ft Road,towards North: 20H Road,towards South : Plot No.2 (the Secured Assets)	1) 17-05-2024. 2) Rs.39,18,835/- (Rupees Thirty Nine Lakh Eighteen Thousand Eight Hundred Thirty Five Only) as on 17th May 2024 3) NPA Date – 04-04-2024
11	1. MR. VIKAS JINDAL, 2. MRS. MEGHA JINDAL, All Address At:- Upper Ground Floor Property No. 116 & 117 Moti Ram Nagar Shahdara New Delhi-110032 Loan Account Number:- RHLDEL00574524/DRHLDEL00580739 Loan Amount Sanctioned: Rs. 53,00,000/-	All Piece And Parcel Of Property Built Up Upper Ground Floor, Without Roofterrace Rights, Area 46.5+46.5 = 93 Sq. Yds., Bearing No. 9-b And 9-b/1, Built On Old Plot No. 1, Out Of Khasara No. 116 & 117, Situated At Village Chandrawali Shahdara, In The Abadi Of Moti Ram Road, Ram Nagar, Illaqa Shahdara, Delhi. Bounded By East: Property Of Others West: Gali North: Property Of Others, South: Property Of Others (the Secured Assets)*	1) 16-05-2024. 2) Rs.54,73,567/- (Rupees Fifty Four Lakh Seventy Three Thousand Five Hundred Sixty Seven Only) as on 16th May 2024 3) NPA Date – 04-03-2024

You the borrower/s and co-borrowers/guarantors are therefore called upon to make payment of the above mentioned demanded amount with further interest as mentioned hereinabove in full within 60 days of this notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above-mentioned securities. **Your attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act by virtue of which you are at liberty to redeem the secured asset** within period stipulated in the aforesaid provision. Please note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise without our consent.

DATE: 01/07/2024 for DCB Bank Ltd
PLACE: Delhi, Gautam Budha Nagar, Ghaziabad, Bahadurgarh. Authorized Officer

कार्यालय, जिला अभियंता जिला परिषद गिरिडीह

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

ई0-निविदा संख्या- DE/ZP/GIRIDIH/04/2024-25

ई- निविदा सूचना संख्या – DE/ZP/GIRIDIH/04/2024-25

1. कार्य की विस्तृत विवरणी:- 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य प्रक्षेत्र मद् / हडको के CSR मद्।

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रघन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य अवधि
1	Construction Block Public Health Unit under Tisri Block District Giridih	50,00,000.00	1,00,000.00	10,000.00	9 माह
2	Construction of Auditorium at Adarsh College Rajdhanwar under Block Dhanwar District Giridih	99,86,500.00	2,00,000.00	10,000.00	12 माह

2. वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि – 03.07.2024

3. ई-निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय दिनांक 03.07.2024 से दिनांक 10.07.2024 को अपराह्न 5:00 बजे तक

4. ई-निविदा खोलने का स्थान- जिला अभियंता, जिला परिषद का कार्यालय, गिरिडीह।

5. ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय – 12.07.2024 अपराह्न 3:00 बजे

6. ई-निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता – जिला अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह।

7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष संख्या – 9431323435 (संचालित जिला अभियंता, गिरिडीह का दूरभाष नम्बर)

8. परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रघन की राशि देय होगी।

9. निविदा शुल्क एवं अग्रघन की राशि केवल **Online Mode** द्वारा स्वीकार्य होगी।

10. निविदा शुल्क एवं अग्रघन की राशि का ई-भुगतान जिस खाता से किया जायेगा, उसी खाते में अग्रघन की राशि वापस होगी। अगर खाता को बंद कर दिया जाता है तो उसकी सारी जवाबदेही संवेदक की होगी।

11. जिला परिषद, गिरिडीह के समुचित श्रेणी एवं उससे एक उपर के निर्धारित संवेदक ही माग ले सकते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पढ़ पर देखा जा सकता है।

जिला अभियंता,
जिला परिषद, गिरिडीह।

PR 328133 (Rural Development) 24-25 (D)

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed that following are the shareholders of the Hughes and Hughes Chem Limited (CIN:- U24100DL1991PLC045290), having its Registered Office situated at 204, 205-206, 2nd Floor, Suite No. 40-41 Bakshi House, Nehru Place, New Delhi-110019. However, all Dividend Warrants and letters sent on their following last known addresses are received back as undelivered. They are hereby requested to inform the change of address immediately to the company at the following address for payment of unclaimed dividend and completion of formalities for dematerialization of their shares.

1. Anil Kumar Agarwal, 110-111, Kumar Complex, 1433 A, Wazir Nagar, Kotla, Mubarakpur, New Delhi-110003.

2. Surbhi Goyal, C/o, C.R. Goel, Addl District & Session Judge, Gurgaon-122001.

3. Sumet Goyal, C/o, C.R. Goel, Addl District & Session Judge, Gurgaon-122001

4. Abha Singh, F- 3/5, Paper Mills Colony, Lucknow-226006.

5. Janya Singh, F- 3/5, Paper Mills Colony, Lucknow-226001.

6. Uday Pratap Singh, F- 3/5, Paper Mills Colony, Lucknow-226006

7. Snehlata Singh, F- 3/5, Paper Mills Colony, Lucknow-226006

Contact Details:
Hughes and Hughes Chem Limited
Registered Office Address:
204, 205-206, 2nd Floor, Suite No. 40-41 Bakshi House, Nehru Place, New Delhi-110019
Mr. Bharat-Company Secretary
Contact: +91 81307 33371
+91 011-47629915
e-mail id: cs@hugheschem.com

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the shares Folio No. **SCL016658** certificate No(s) **20407, 39729 for 100 shares** bearing distinctive No(s) **2198441-2198490, 11464201-11464250** standing in the name(s) of **BHAGWAT DAS AGARWAL (Deceased)** in the books of M/s **SHREE CEMENT LIMITED**, has/have been lost/ misplaced/destroyed and the advertiser has/have applied to the to the Company for issue of duplicate share certificate(s) in lieu thereof. Any person(s) who has/have claim(s) on the said shares should lodge such claim(s) with the Company's Registrar **Bangur Nagar Distt.-Ajmer, Beawar, Rajasthan, 305901** within 15 days from the date of this notice failing which the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in respect of the said shares.

Name(s) of the Applicant(s)
GANGA DEVI

Place : Ajmer Date : 01.07.2024

ASIAN HOTELS (WEST) LIMITED				
CIN NO. L55101DL2007PLC157518 Corporate & Registered Office : 6th Floor, Aria Towers, J.W. Marriott, Asset Area 4, Hospitality District, Near IGI Airport, New Delhi - 110037 Website: www.asianhotelswest.com , Phone Off: 011-011 41597329, Fax: 011-41597321 EXTRACT OF AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED ON 31/03/2021 AND 31/03/2022 (₹ in Lakhs)				
PARTICULARS	STANDALONE		CONSOLIDATED	
	Year ended 31/03/2021	Year ended 31/03/2022	Year ended 31/03/2021	Year ended 31/03/2022
	AUDITED *	AUDITED *	AUDITED *	AUDITED *
1 Total Income from Operations	3,504.28	556.76	13,141.42	15,873.74
2 Net Profit/ (Loss) for the period before exceptional items & tax	(4,825.46)	(4,189.91)	(14,947.17)	(11,957.46)
3 Net Profit/ (Loss) for the period before Tax(after Exceptional items)	(4,825.46)	(4,189.91)	(14,947.17)	(11,957.46)
4 Net Profit/ (Loss) for the period after Tax	(4,760.87)	(3,986.44)	(14,885.96)	(11,751.93)
5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising net profit/ (loss) after tax and other comprehensive income after tax)	(4,743.26)	(3,986.44)	(14,861.33)	(11,746.98)
6 Paid up Equity Share Capital	1,165.12	1,165.12	1,165.12	1,165.12
7 Other Equity excluding revaluation reserves**	26,330.04	22,343.60	(5,664.61)	(17,409.77)
8 Securities Premium Account	723.02	723.02	723.02	723.02
9 Net Worth	28,218.18	24,231.74	(3,776.47)	(15,521.63)
10 Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt***	26,395.31	26,481.27	79,837.35	78,964.43
11 Outstanding Redeemable Preference Shares	650.00	650.00	650.00	650.00
12 Debt Equity Ratio (In times)	0.96	1.12	(21.31)	(5.13)
13 Earnings Per Share (of ₹10 each) for continuing and discontinued operations- (not annualised) (In ₹)				
1. Basic :	(40.86)	(34.21)	(127.74)	(100.85)
2. Diluted :	(40.86)	(34.21)	(127.74)	(100.85)
14 Capital Redemption Reserve	990.00	990.00	990.00	990.00
15 Debenture Redemption Reserve	-	-	-	-
16 Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (In times)	(0.01)	(0.04)	0.10	0.09
17 Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (In times)	(0.38)	(1.08)	(0.40)	(0.33)
Notes: ** Excluding Security premium reserves *** Excluding 9% non convertible & non cumulative redeemable preference share capital but including lease liabilities Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Annual Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the website of the company at www.asianhotelswest.com and on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com . 2. The above results have been reviewed by the Audit Committee in their meeting held on 29.06.2024 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on the same date. 3. The Company was undergoing Corporate Insolvency And Resolution Proceedings(CIRP), with the order of Hon'ble NCLAT dated 9th January, 2024 the CIRP was closed and set aside. Now the Company is in the process of doing its pending compliances so no quarterly/half yearly/yearly previous year figures are available. 4. For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the BSE & NSE and can be accessed on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com . 5. The company has prepared these financial results in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013. For and on behalf of the Board Sd/- (Sandeep Gupta) Chairman & Non Executive Director DIN: 00057942 Place: New Delhi Date: June 29, 2024				

Greenply Industries Limited

GREENPLY INDUSTRIES LIMITED

CIN: L20211WB1990PLC268743

Registered Office : "Madgul Lounge", 23 Chetla Central Road, 6th Floor, Kolkata-700 027

Phone: (033) 3051-5000, Email: investors@greenply.com, Website: www.greenply.com

RESULT OF POSTAL BALLOT

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ('Act, 2013') read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force ('Rules, 2014'), the approval of the Shareholders was sought by means of Postal Ballot by way of remote e-voting in respect of the special resolution as specified in the Postal Ballot Notice dated 21st May, 2024.

Mr. Rajesh Mittal, Chairman cum Managing Director of the Company has announced the result of the postal ballot process by way of remote e-voting on the basis of a report dated 29th June, 2024 submitted by the Scrutinizer Mr. Dilip Kumar Sarawagi, Practicing Company Secretary, Proprietor of M/s. DKS & Co. of 173, M. G. Road, 1st Floor, Kolkata - 700 007, appointed in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014.

The result relating to the Postal Ballot process by way of remote e-voting declared on 29th June, 2024 at 2:00 p.m. as follows:

	No. of issued shares of the Company	No. of votes polled	No. of valid votes polled	No. of invalid votes polled	No. of Valid Votes – in favour	No. of Valid Votes – against	% of Votes in favour of valid votes polled	% of Votes against on valid votes polled
	1	2	3	4	5	6	(7) = [(5)/(3)] * 100	(8) = [(6)/(3)] * 100

Resolution 1: Approval of Corporate Guarantee issued by the Company in connection with loan taken by, Greenply Samet Private Limited, a Joint Venture Company, for an amount of Rs. 55 Crores (Rupees Fifty Five Crores).

Physical		0	0	0	0	0	0.0000	0.0000
Electronic		103189781	103189781	0	103187206	2575	99.9975	0.0025
Total	12,36,98,645	103189781	103189781	0	103187206	2575	99.9975	0.0025

The resolution listed above have been passed and the result of the Postal Ballot voting by way of remote e-voting process have been communicated to the Stock Exchanges as well as hosted on the website of the Company i.e. www.greenply.com

For Greenply Industries Limited
Sd/-
Rajesh Mittal
Chairman Cum Managing Director
(DIN: 00240900)

FORM NO. URC-2

Advertisement giving notice about registration under part I of Chapter XXI of the Act

[Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at the Central Registration Centre (CRC) Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6/7, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code- 122050 that M/s Pacific Staffing Solutions LLP, a LLP may be registered under part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a company limited by shares.

2. The Principle objects of the company are as follows:
To carry on the business of Management Consultancy Activities
3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at F-801, Prateek Stylome, Sector 45, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh 201303.

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at the Central Registration Centre (CRC) Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6/7, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within 21 days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.
Dated this 01st Day of July 2024

Name of the Applicant
For and On behalf of Pacific Staffing Solutions LLP
Sd/- Sanjay Drabu
Designated Partner
DPIN:00085755

कार्यालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, लातेहार शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय के द्वारा प्रकाशित ई-निविदा संख्या 02/2024-25/EE/RWD/LATEHAR जिसका PR No. - 326930REO (24-25)#D है, में कार्य समाप्ति की समयवाधि 09 माह के स्थान पर 15 माह पढ़ा जाय।

निविदा के शेष सभी शर्तें यथावत रहेगी।

कार्यालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, लातेहार।

PR.NO.328165 REO(24-25):D

Mahindra LIFESPACES

Mahindra Lifespace Developers Limited

Registered Office: 5th Floor, Mahindra Towers, Worli, Mumbai 400 018;
Tel: 022- 67478600 E-mail: investor.mldl@mahindra.com;
Website: www.mahindralifespaces.com

Corporate Identity Number: L45200MH1999PLC118949

NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING AND VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting ("AGM") of Mahindra Lifespace Developers Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 24th July, 2024 at 3:00 p.m. (IST) through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("Listing Obligations and Disclosures Requirements") Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022, MCA General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, MCA General Circular Nos. 14 & 17/2020 dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 respectively and No. 09/2023 dated 25th September, 2023 ("MCA Circulars") and Securities Exchange Board of India (SEBI) Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated 11th July, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 (SEBI Circulars).

The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of proxies by the Members will not be available since this AGM is being held through VC/OAVM.

In compliance with the applicable MCA Circulars and SEBI Circulars, the dissemination of the Notice of the AGM and the Financial Statements, Boards' Report, Auditors Report and other documents required to be attached therewith for the Financial Year ended 31st March 2024 has been completed on Saturday, 29th June, 2024 in electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e. KFin Technologies Limited ("KFin") / the Depository Participants.

The Notice of the 25th AGM and the Integrated Annual Report for Financial Year 2023-24 are also uploaded on the Company's website at www.mahindralifespaces.com and can also be accessed on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <https://www.bseindia.com> and <https://www.nseindia.com> respectively and on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com>. Physical copies of the Integrated Annual Report and the Notice of the 25th AGM will be provided to the Members on request.

In compliance with the provision of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI LODR, the Members are provided with the facility to cast their vote remotely on all resolutions set-forth in the Notice of AGM through electronic voting platform provided by National Securities Depositories Limited ("NSDL") ("Remote e-voting") and also through e-voting at the AGM. The detailed procedure to login and access Remote e-voting is provided in notes to the Notice of the AGM.

The remote e-voting will commence on Friday, 19th July, 2024 (9:00 a.m. IST) upto Tuesday, 23rd July, 2024 (5:00 p.m. IST) and thereafter the remote e-voting module shall be disabled. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time. Once the vote on a resolution stated in the AGM Notice is cast by a Member, the same cannot be changed subsequently.

Members attending the AGM who have not already cast their votes by remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be able to cast their vote electronically during the AGM. The Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Wednesday, 17th July, 2024 (the cut-off date) shall be entitled to cast vote through remote e-voting or e-voting during AGM. The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquire shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, 17th July, 2024 may follow steps mentioned in the notes to the Notice of the AGM. Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, 17th July, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com with cc to investor.mldl@mahindra.com. However, if Member is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing user ID and password for e-voting.

The manner of casting votes through remote e-voting or through e-voting during the AGM for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in the notes to the Notice of the AGM.

Members whose e-mail addresses are not registered, are requested to get the same registered/updated by following the procedure given below:

a. Members holding shares in dematerialised form can get their e-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant.

b. Members holding shares in physical form are requested to register / update your email address/mobile by sending Form ISR-1 duly filled along with necessary supporting to KFin at einward.ris@kfinetech.com with cc to investor.mldl@mahindra.com. The duly filled signed forms alongwith supporting documents shall be sent at KFin Technologies Limited, Unit: Mahindra Lifespace Developers Limited, Selenium, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, Telangana – 500032.

In case of any queries relating to remote e-voting and for attending the AGM through VC/OAVM, you may refer the Help and Frequently Asked Questions (FAQs) user manual available in the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to evoting@nsdl.co.in or by sending request addressed to Ms. Prajakta Pawle, Executive, at Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013. The grievances can also be addressed to the Company at investor.mldl@mahindra.com.

The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of AGM which is within the time stipulated under the applicable laws. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.mahindralifespaces.com, on the website of KFin <http://www.kfinetech.com/>, on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com and shall be communicated to the Stock Exchanges and shall be displayed at the Registered office of the Company.

Place: Mumbai
Date: 1st July, 2024

For Mahindra Lifespace Developers Limited
Sd/-

Bijal Parmar
Assistant Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. - ACS 32339

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the below mentioned Authorised Person is no longer affiliated as Authorised Person of Kotak Securities Limited.

Authorised Person Name	Trade Name	Exchange Registration Numbers of Authorised Person	Address of Authorised Person
Transparent Wealth Creators Advisory LLP	Transparent Wealth Creators Advisory LLP	NSE - AP0291083414 BSE - AP0106730145515	Unit No Ground Floor Yash 20 Swastika Society V M Road Opp Dena Bank Vile Parle West Mumbai 400056

Please note that above mention Authorised Person (AP) is no longer associated with us. Any person henceforth dealing with above mention AP should do so, at their own risk. Kotak Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transactions till date, Investors are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this notification, failing which it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned AP.

Kotak Securities Limited, Registered Office: 27 BKG, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. CIN: U99999MH1994PLC134051, Telephone No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430. Website: www.kotak.com / www.kotaksecurities.com. Correspondence Address: Infinity IT Park, Bldg. No. 21, Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malad (East), Mumbai 400097. Telephone No: 42565825. SEBI Registration No: INZ000200137/Member of NSE, BSE, MSE, MCX & NCDX). AMFI ARN 0164, PMS INP00000258 and Research Analyst INH000000586. NSDL/CDSL : IN-DP-629-2021. Compliance Officer Details: Mr. Hiren Thakkar Call: 022-4285 8484, or Email: ks.compliance@kotak.com

Tips Films Limited

CIN:U74940MH2009PTC193028
tipsfilms.in
Regd. Office : 501, Durga Chambers, 5th Floor,
Linking Road, Khar West, Mumbai 400052
Telephone: +91-22-66431188
E-mail id: info@tipsfilms.in, Website: www.tipsfilms.in

NOTICE OF 15th ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

1. NOTICE is hereby given that the 15th Annual General Meeting ("AGM") of Tips Films Limited ("Company") will be held on **Monday, July 29, 2024 at 11:00 a.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulation") read with general circular no. 09/2023 dated September 25, 2023 and all other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 (collectively referred to as "the Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. Shareholders will be able to attend the AGM through VC/OAVM.

2. In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 ("the Annual Report") will be sent to all Shareholders of the Company whose email addresses are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent ("RTA")/Depositories Participants ("DPs").

However, members of the Company may request physical copy of the Annual Report from the Company by sending a request at cs@tipsfilms.in in case they wish to obtain the same.

3. The Annual Report will also be available on the Company's website at www.tipsfilms.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and the e-voting website of Central Depository Services Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

Manner of casting votes through e-voting:

Shareholders who have not registered their email address will have an opportunity to cast their vote on the businesses as set out in the Notice of the AGM electronically either through remote e-voting system available before the AGM or through electronic voting system which will be available during AGM. The manner of voting for shareholders holding shares in dematerialized and physical mode will be provided in the Notice to the shareholders.

Book Closure Date :

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Listing Regulation, the Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, July 23, 2024 to Monday, July 29, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company for the financial year ended March 31, 2024.

Manner of registering /updating email addresses/Bank Account:

Shareholders holding the shares in demat mode and have not updated their KYC details are requested to register their email and other KYC details with their depositories through depository participants. This will enable the Shareholders to receive the electronic copies of the Annual Report 2023-24, Notice, instructions for remote e-voting, instruction of participation in the AGM through VC.

Shareholders are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM, instructions for joining the AGM, manner of casting the vote through remote e-voting and through e-voting during the AGM.

By order of the Board
For Tips Films Limited

Sd/-

Place : Mumbai
Date : June 29, 2024

Dharmesh Navdhare
Company Secretary



GREENPLY INDUSTRIES LIMITED

CIN: L20211WB1990PLC268743

Registered Office : "Madgul Lounge", 23 Chetla Central Road, 6th Floor, Kolkata-700 027
Phone: (033) 3051-5000, Email: investors@greenply.com, Website: www.greenply.com

RESULT OF POSTAL BALLOT

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("Act, 2013") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force ("Rules, 2014"), the approval of the Shareholders was sought by means of Postal Ballot by way of remote e-voting in respect of the special resolution as specified in the Postal Ballot Notice dated 21st May, 2024.

Mr. Rajesh Mittal, Chairman cum Managing Director of the Company has announced the result of the postal ballot process by way of remote e-voting on the basis of a report dated 29th June, 2024 submitted by the Scrutinizer Mr. Dilip Kumar Sarawagi, Practicing Company Secretary, Proprietor of M/s. DKS & Co. of 173, M. G. Road, 1st Floor, Kolkata - 700 007, appointed in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014.

The result relating to the Postal Ballot process by way of remote e-voting declared on 29th June, 2024 at 2:00 p.m. as follows:

	No. of issued shares of the Company	No. of votes polled	No. of valid votes polled	No. of invalid votes polled	No. of Valid Votes – in favour	No. of Valid Votes – against	% of Votes in favour on valid votes polled	% of Votes against on valid votes polled
	1	2	3	4	5	6	(7) =	(8) =
							[(5)/(3)] * 100	[(6)/(3)] * 100
Resolution 1: Approval of Corporate Guarantee issued by the Company in connection with loan taken by, Greenply Samet Private Limited, a Joint Venture Company, for an amount of Rs. 55 Crores (Rupees Fifty Five Crores).								
Physical		0	0	0	0	0	0.0000	0.0000
Electronic		103189781	103189781	0	103187206	2575	99.9975	0.0025
Total	12,36,98,645	103189781	103189781	0	103187206	2575	99.9975	0.0025

The resolution listed above have been passed and the result of the Postal Ballot voting by way of remote e-voting process have been communicated to the Stock Exchanges as well as hosted on the website of the Company i.e. www.greenply.com

Place: Kolkata
Dated: 29.06.2024

For Greenply Industries Limited
Sd/-

Rajesh Mittal
Chairman Cum Managing Director
(DIN: 00240900)



STATE BANK OF INDIA

State Bank Rural Self Employment Training Institute Trust
(Registered with Assistant Charity Commissioner, Mumbai)
Registration No: F-62312 (Mumbai)
State Bank of India, Local Head Office,
Bandra Kura Complex, Bandra East, Mumbai – 400051

TENDER FOR PROVIDING SKILLED & UNSKILLED MANPOWER TO BE DEPLOYED AT 8 RSETIs OF SBRSETI TRUST IN MAHARASHTRA

State Bank Rural Self Employment Training Institute (SBRSETI) Trust Mumbai invites tenders for providing Skilled & Unskilled manpower to be deployed in 8 SBRSETIs in Maharashtra state. For further details and downloading Tender Document, please visit Bank's website www.bank.sbi under the path SBI in the News → Procurement News from 01.07.2024 to 16.07.2024. Further clarification / notice in this regard will be posted on the Bank's above mentioned web site.

Assistant General Manager (RSETI) & Secretary SBRSETI Trust,
Maharashtra Circle Mumbai

NOTICE FOR SALE & LEASE BACK OF OFFICE PREMISES COMMERCIAL

Ownership Office premises is for sale & lease back, along with the corresponding rights arising out of the ownership thereof, more specifically mentioned hereunder "As is where is, As is what is, whatever there is basis and without recourse". Offers are invited in a sealed envelope so as to reach the undersigned on or before 15th July, 2024 by 2:00 pm.

Sr. No.	Address of Property	Reserve Price Rs.	Earnest Money Deposit Rs.
1.	BORIVALI (WEST) Unit Nos. 1 to 7, Kalpana Apts., Punjabi Lane, Off L.T. Road, Borivali (West), Mumbai 400 092.	Rs. 9.25 Crore	Rs.25.00 Lakh

•Detailed terms and conditions of the sale are set out in the Tender documents which are available at New India Bhavan, A. V. Nagwekar Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400 025, from 1st July, 2024 to 12th July, 2024 on any working day between 11:00 a.m. to 5:00 p.m. on payment of Rs.10,000/- plus Rs.1,800/- GST, Total Rs.11,800/- by pay order or DD drawn in favour of 'Tender Account' payable at Mumbai.

•The interested parties may submit their offer in a sealed envelope latest by 15th July, 2024 before 2:00 p.m. at New India Bhavan, A.V. Nagwekar Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400 025.

•For any further queries and Tender documents, you may call the undersigned on 86574 51477 between 11.00 a.m. to 5.00 p.m. on any working day.

•The Owner of the premises reserves its rights to accept or reject any offer and /or modify or cancel and /or postpone the bid, without giving any reasons.

By Order,
Santosh Concesso

Designated Officer

Place : Mumbai
Date :01.07.2024

ASIAN HOTELS (WEST) LIMITED

CIN No. L55101DL2007PLC157518

Corporate & Registered Office : 6th Floor, Aria Towers, J.W. Marriott, Asset Area 4, Hospitality District, Near IGI Airport, New Delhi - 110037

Website: www.asianhotelswest.com, Phone Off: 011-41597329, Fax: 011-41597321
EXTRACT OF AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
FOR THE YEAR ENDED ON 31/03/2021 AND 31/03/2022 (₹ in Lakhs)

PARTICULARS	STANDALONE		CONSOLIDATED	
	Year ended 31/03/2021	Year Ended 31/03/2022	Year ended 31/03/2021	Year Ended 31/03/2022
	AUDITED *	AUDITED *	AUDITED *	AUDITED *
1 Total Income from Operations	3,504.28	556.76	13,141.42	15,873.74
2 Net Profit/ (Loss) for the period before exceptional items & tax	(4,825.46)	(4,189.91)	(14,947.17)	(11,957.46)
3 Net Profit/ (Loss) for the period before Tax(after Exceptional items)	(4,825.46)	(4,189.91)	(14,947.17)	(11,957.46)
4 Net Profit/ (Loss) for the period after Tax	(4,760.87)	(3,986.44)	(14,885.96)	(11,751.93)
5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising net profit/ (loss) after tax and other comprehensive income after tax)	(4,743.26)	(3,986.44)	(14,861.33)	(11,746.98)
6 Paid up Equity Share Capital	1,165.12	1,165.12	1,165.12	1,165.12
7 Other Equity excluding revaluation reserves**	26,330.04	22,340.60	(5,664.61)	(17,409.77)
8 Securities Premium Account	723.02	723.02	723.02	723.02
9 Net Worth	28,218.18	24,231.74	(3,776.47)	(15,521.63)
10 Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt***	26,395.31	26,481.27	79,837.35	78,964.43
11 Outstanding Redeemable Preference Shares	650.00	650.00	650.00	650.00
12 Debt Equity Ratio (In times)	0.96	1.12	(21.31)	(5.13)
13 Earnings Per Share (of ₹10 each) for continuing and discontinued operations- (not annualised) (In ₹)				
1. Basic :	(40.86)	(34.21)	(127.74)	(100.85)
2. Diluted :	(40.86)	(34.21)	(127.74)	(100.85)
14 Capital Redemption Reserve	990.00	990.00	990.00	990.00
15 Debenture Redemption Reserve	-	-	-	-
16 Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (In times)	(0.01)	(0.04)	0.10	0.09
17 Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (In times)	(0.38)	(1.08)	(0.40)	(0.33)

Notes :

** Excluding Security premium reserves
*** Excluding 9% non convertible & non cumulative redeemable preference share capital but including lease liabilities

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Annual Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the website of the company at www.asianhotelswest.com and on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee in their meeting held on 29.06.2024 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on the same date.
- * The Company was undergoing Corporate Insolvency And Resolution Proceedings(CIRP), with the order of Hon'ble NCLAT dated 9th January, 2024 the CIRP was closed and set aside. Now the Company is in the process of doing its pending compliances so no quarterly/half yearly/yearly previous year figures are available.
- For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the BSE & NSE and can be accessed on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.
- The company has prepared these financial results in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Sandeep Gupta)
Chairman & Non Executive Director
DIN: 00057942

Place: New Delhi
Date: June 29, 2024

NOTICE

NOTICE is hereby given to the public that the Original stamped sale agreement dated 06.01.1997 executed between **Mr. S. Venkataratnam and Mrs. Vanita D. Pai and Mr. Damodar A. Pai with Registration No. 269** along with Stamp Duty Paid chalan No. 218500 Dt. 19.11.2004 & 7321945 Dt. 06.10.2006 for the property Flat No. 101 at Pavanalayaam Co-operative Housing. Society Ltd., Plot No. 10, Dwaraka, Vallabh Baug Lane, Ghatkopar (East), Mumbai-400 077 has been lost / misplaced.

It is further informed that no mortgage or any type of lien has been created against the said property nor any loan has been availed against the said property. All persons are hereby informed not to carry out any transaction with anyone on the basis of the said document.

If any transaction has been carried out on the basis of the said document, the same may be brought to our notice within 7 days (Seven days) of this public notice.